SWADESHI POLYTEX LIMITED

Regd Office: Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)
Tele/Fax: +91-120-2701472, Email: info@splindia.co.in, Website: www.splindia.co.in
CIN: L25209UP1970PLC003320

13th November, 2021

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400-001

Ref: Scrip Code No 503816

Dear Sir,

<u>Subject: Newspaper Clippings of Un-audited Financial Results under Regulation 33 of SEBI</u>
(<u>Listing Obligations and Disclosure Requirements</u>) Regulations, 2015.

Pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2021 approved in the Board Meeting held on Friday, 12th November, 2021 was published in the following newspapers.

- 1. The Financial Express (English)
- 2. Jansatta (Hindi)

We submit herewith newspaper clippings for the same.

Kindly acknowledge the receipt.

Yours Faithfully,

For SWADESHI POLYTEX LIMITED

Surbhi Basantani Company Secretary Demand Notice

FINANCIAL EXPRESS

Public Notice For E-Auction Cum Sale (Appendix – IV A) (Rule 8(6))

Sale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate Office at Plo No.98, Udyog Vihar, Phase–IV, Gurgaon-122015. (Haryana) and Branch Office at:- Office No 1, First Floor, Mahaluxmi Metro Tower, Plot No. C -1, Sector - 4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201010. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002(hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IIFL HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.bankeauctions.com.

Date of Description of the

ı	Guarantor(s)	Date and Amount	Physical Possession	Secured Asset	Price	of property
	Archna Manglik (Prospect No. IL10046174)	Rs.42,25,586/- (Rupees Forty Two Lakh Twenty Five Thousand Five Hundred Eighty Six Only) Bid Increase Amount: Rs.40,000/- (Rupees Forty	Total Outstanding as on Date 11-Nov-2021 Rs.47,62,749/- (Rupees Forty Seven Lakh Sixty Two	Ghaziabad, Uttar Pradesh.	Sixteen Lakh Fifty Thousand Only)	1100 hrs - 1400 hrs EMD Last Date 03-Dec-2021 till 5 pm. Date / Time of E-
	Mode of Payment:- All The accounts details an	payment shall be made by the as follows: a) Name of the	demand draft in favour o le account:- IIFL Home	"IIFL Home Finance Limite Finance Ltd., b) Name of the	d" payable at Gurugram o Bank:- Standard Charted	r through RTGS/NEFT Bank Ltd., c) Accoun

No:-53105066294, d) IFSC Code:-SCBL0036025 or through Payment Link: https://quickpay.iiflfinance.com

https://www.bankeauctions.com, well in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office. 2. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes.

3. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the prescribed mode of payment. 4. The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all

4. The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property.
5. Bidders are advised to go through the website https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings.
6. For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID:- support@bankeauctions.com, Support Helpline Numbers:@7291981124/25/26.and any property related query Mr. Muni Pradhan@9873478000, Email ID:-muni.pradhan@iifl.com
7. Notice is hereby given to above said borrower/s that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law 8. Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law. 9. In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the

amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale. 10. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final

15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE RULE 9 SUB RULE (1) OF SARFAESI ACT, 2002 The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction, failing which

the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost Date: 13-November-2021 Place: Ghaziabad Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited

STATE BANK OF INDIA OSBI CP-123, Viraj Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Place : New Delhi Date: 11.11.2021 NOTICE

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT - 2002

Hereby this is to inform that under named borrowers have not repaid principal and interest thereon of the loan Therefore the loans have become NPA, notices under section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 were issued at last known address of the borrowers, which were returned undelivered. Therefore again we inform to under named borrowers/Guarantors by this public notice to pay the loan amount due including interest and other expenses as mentioned in this notice within 60 days from the date of publication of this notice otherwise bank will be bound to take action under 13(4) of the SARFAESI Act 2002.

SI. No.	Name & Address of the Borrower & Guarantor, Owner of the property/Branch/A/c No.	Description of The Movable Property mortgaged	O/s Amount as mentioned in the Notice u/s 13(2)
1	Borrower: Mr. Vivek Kumar Sinha S/o Shri Vinod Kumar Sinha, Rita Mahila Kendra, Postal Partk Chowk, Patna G.P.O., Patna, Bihar-800001. Branch: Vibhuti Khand Branch, Lucknow (16726) A/C No.: 36519660112	MARUTI IGNIS DELTA PET Registration No.: UP-32-HS-1634	₹ 3,35,669/- as on 06.03.2021 + interest & other expenses
2	Borrower: Mr. Raj Kumar Maurya, B-5, Ram Vihar Colony, Pandit Purwa, Sector-14, Indira Nagar, Lucknow-226016. Branch: Gomti Nagar Branch, Lucknow (9916) A/C No.: 37325317393	MARUTI BREZZA VDI Registration No.: UP-32-JM-9499	₹ 4,15,292/- as on 13.07.2021 + interest & other expenses
3	Borrower: Mr. Devesh Shukla S/o Prem Shankar Shukla, 3/50, Ruchi Khand-1, Sharda Nagar Yojna, Lucknow-226002 Branch: Jawahar Bhawan Branch, Lucknow (6144) A/C No.: 37890703118	TATA NEXON XM 1.5 RTQ Registration No.: UP-32-JZ-8183	₹ 5,58,469/- as on 18.07.2021 + interest & other expenses
4	Borrower: Mr. Sandeep Pandey, Suraksha 1-14, Vishwas, Eldeco Udyan-2, Sector-4, Lucknow-226025 Branch: Gomti Nagar Branch, Lucknow (9916) A/C No.: 38022013956	MARUTI IGNIS DELTA PETROL Registration No.: UP-32-KE-9011	₹ 2,55,884/- as on 17.08.2021 + interest & other expenses
5	Borrower: Mr. Jagmohan Singh Yadav S/o Shri Kandhai Lal Yadav, Village Bahadur Khera, Post Mohanlal Ganj, Lucknow- 227305 Branch: Vasundhara Branch, Lucknow (10512) A/C No.: 37453401403	MAHINDRA KUV 100 NXT Registration No.: UP-32-JP-2526	₹ 3,39,830/- as on 24.09.2021 + interest & other expenses
6	Borrower: Mr. Shivendra Singh Chauhan S/o Shri Ishendra Singh, House No. 161, Rampuri Civil Lines, Unnao-209801 Branch: Jawahar Bhawan Branch, Lucknow (06144) A/C No.: 38279328067	TATA TIAGO NRG XZ 1.05 RTQBS4 Registration No.: UP-32-KM-5893	₹ 5,72,891/- as on 19.09.2021 + interest & other expenses
7	Borrower: Mr. Anil Kumar Gupta S/o Shri Hari Ram Gupta, House No. 15/195, Indira Nagar, Lucknow-226016 Branch: Jawahar Bhawan Branch, Lucknow (06144) A/C No.: 35490595338	VOLKSWAGAN POLO 1.2 CR HIGHLINE Registration No.: UP-32-GV-0019	₹ 1,53,059/- as on 03.09.2021 + interest & other expenses

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

Date: 13.11.2021, Place: Lucknow

Central Bank of India

Authorised Officer, State Bank of India

Regional Office, K.P. Complex, Near Hotel Park Plaza, Ferozepur Road, Ludhiana-141001 "SERVING TO YOU SINCE 1911"

(Without Prejudice) APPENDIX IV (See rule 8(1)) POSSESSION NOTICE SYMBOLIC POSSESSION (For Immovable Property/ies) Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Central Bank of India under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13(12) read with Rules 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. The Bank issued Demand Notice on the date mentioned against account and stated herein after calling upon the borrower(s)/guarantor(s) to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower(s)/guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s)/guarantor(s) and public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read within rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rule 2002 on the dates mentioned against the account.

The borrower(s)/guarantor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property/ies. Any dealing with the property will be subject to the charge of Central Bank of India for the amount and interest thereon.

The borrower(s)/ guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset(s).

Name of the Branch Date of Description of Amount Date of Borrower/Guarnator Demand Property/ies Outstanding Possession Notice B/O: Mandi Gobindgarh

Borrowers: 1. Mr. Amritpal Total Property measuring 6 Maria 21.06.2021 10.11.2021 Rs. 8.60.062/ Singh S/o Mr. Gurbachan comprising of Khatta No 1/16 Khasra (Rupees Eight Lakh Sixty Thousand Singh. 2. Ms. Ranjit kaur Rect No. 21//4(8-0) to the extent of Sixty Two only.) along with interest 5/160 share i.e. 5 Marla & Khatta on @7.10 % p. a on monthly rests to W/o Mr. Gurbachan Singh. No.205/274 Khasra Rect. No.21//3(8-0) be calculated from 21.06.2021 plus to the extent of 1/160 share, thus total land measuring measuring 6 further interest and expenses Marla as per Jamabandi for the year 2013-2014 situated within the thereon

revenue limits of village Mugalmajra Tehsil Amloh Distt Fatehgarh Sahib & as per title deed, the property is bounded as under: East:- Vinod Kumar, West: Vacant Plot, North: Passage 20' Wide, South: Sher Singh etc., Size: 57'-0"X 27'-7". Owned by Amritpal singh s/o Gurbachan singh vide sale deed bearing wasika no. 1436 dated 25.03.2015

B/O: Mandi Gobindgarh Property/Land measuring 14 Biswa 13 02.06.2021 10.11.2021 Rs. 44,40,293 Borrower: M/S Anhad Biswasi comprising of Khata/Khatouni (Rupees Forty Four Lakh Forty No. 441/652, Khasra No. 678/644/527 Thousand Two Hundred and Ninety Steel through Proprietor (1-8), 827/679/528 (2-16), 680/528(1-Three only.) along with interest on Mr. Parveen Kanwal S/o 18), 829/648/530(1-12), 646/529 (1-4), @9.10 % p. a on monthly rests to be Mr. Chajju Singh Kanwal. 830/648/530 (4-6), Total 13 Bigha 4 calculated from 02.06.2021 plus Biswa to the extent of 1/18 share i.e. 14 Biswa 13 Biswasi, as per further interest and expenses

Jamabandi for the year 2002-2003, Situated in the revenue limits of thereon. Village Nsrali, Tehsil Amloh, District Fatehgarh Sahib, bounded as under:- East: 106'Purchaser, West: 106' Petrol Pump, North: 62'-3" Om Parkash and Purchaser, South: 62'-3" Sarak(Road). Owned by Parveen Kanwal S/o Chajju Singh Kanwal vide original sale deed bearing wasika no. 1924 dated 16.11.2006.

B/O: Moga Bhushan S/o Mr. Brij Lal. 2. Ms. Alka Rani W/o

Property measuring 8 marla 3 sarsahi 22.06.2021 11.11.2021 Rs. 4,76,266/ Borrower: 1. Mr. Bharat being 75/1557 share out of 8 kanal 13 (Rupees Four Lakh Seventy Six marlas bearing khasra no. 118//4/1 (6- Thousand Two Hundred and Sixty Six 0), 5/1(2-13), khewat no. 3180, khatauni only.) along with interest on Cent no. 3887 as per jamabandi for the year Mortgage @ 9.60% on monthly rests Bhara Bhushan. 3. Ms. 2012-2013 Situated at Moga Mehla to be calculated from 22.06.2021 plus Singh-I, Moga, District Moga and further interest and expenses

Bounded as under: North: Owner 29'6", South: Rasta/Gali 29'6", thereon. East: Bharat Furniture Wale 77', West: Via 77', Owned by Alka W/o Bharat Bhushan and Janak Rani W/o Brij Lal vide sale deed bearing Wasika No.867 dated 11.05.2016.

B/O: Moga

Property measuring 21 Marla 2 1/2 22.06.2021 11.11.2021 Rs. 23,66,819/-Borrower: 1. Mr. Gurpreet Sarsahi Being 383/612 share out of 1 (Rupees Twenty Three Lakh Sixty Six Kanal 14 Marlas bearing Khasra No. Thousand Eight Hundred and Singh S/O Mr. Aimer 175/1-14, Khewat No. 139, as per Nineteen only.) (Cent Mortgage (OD)-Singh. 2. Ms. Rajveer jamabandi for the year of 2004-2005, 2048945.00+ Cent Covid Sahayata-Kaur W/o Gurpreet situated at Village Dagru, Tehsil & 209874.00+FiTL -108000.00)along Singh. District Moga. Bounded as under: East: with interest on Cent Mortgage (OD) @

Boota Singh, West: Jeet Singh, North: Sohan Singh, South: Street. 9,70% and on Cent Covid Sahayata@ Owned by Mr. Gurpreet Singh S/o Mr. Ajmer Singh Vide sale deed 7.30% on monthly rests to be

bearing Vasika No. 4165 dated 22.08.2007 Registered in the office of calculated from 22.06.2021 plus sub Registrar Moga, Distt Moga B/O: Moga

Shakti Plywood & Hardware Store Through

financialexp.epap.in

further interest and expenses thereon. Property measuring 2 Marla being 22.06.2021 11.11.2021 Rs. 11.69.168/ Borrower: M/S Shiv 18/36 share out of 4 Marla bearing (Rupees Eleven Lakh Sixty Nine Khasra No. 1900/1 (0-4), Khewat No. Thousand One Hundred and Sixty 1459, Khatauni No. 1710 as per Eight only.) along with interest @ Jamabandi for the year of 2007-2008 10.10% on monthly rests to be proprietor Mr. Kapil situated at Moga Mehla Singh III Moga, calculated from 22.06.2021 plus Bansal S/o Mr. Rajinder District Moga, Bounded as: North: further interest and expenses thereon. Kumar. Guarantor Mr. Mustri Amroja, South: Satish Kumar, East: Puran Depot Wala, West: Gali Rajinder Kumar S/o Mr. Owned by Rajinder Kumar S/o Madan Lal vide sale deed vasika no. 6082

dated 19.10.2011. Madan Lal. Date: 12.11.2021 Place: Ludhiana **Authorised Officer** UNIVERSAL OFFICE AUTOMATION LIMITED

CIN: L34300DL1991PLC044365 Regd. Off.: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi 110 019 Website: www.uniofficeautomation.com ;email:investoroa@hcl.com; Ph : 011- 26444812 Extract of standalone Un-Audited Financial Results for the guarter & half year ended 30th September 2021

SL No.	Particulars	Current quarter ended 30.09.2021	preceding quarter ended 30.06.2021	Corresponding quarter in the previous year 30.09.2020	Six months ending 30.09.2021	Six months ending 30.09.2020	Year ended 31" March, 2021
	0//21	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited
1	Other Income	4.12	2.52	3.20	6.64	6.81	13.12
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2.3	(1.55)	1.63	0.75	1.44	(35.97)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.3	(1.55)	1.63	0.75	1.44	(35,97)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.3	(1.55)	1.63	0.75	1.44	(35.97)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.3	(1.55)	1.63	0.75	1,44	(35.97)
6	Equity Share Capital	1465.27	1465.27	1465.27	1465.27	1465.27	1465.27
7	Reserves (Excluding Revaluation reserves as shown in Balance Sheet of previous year	(1,2-7,10	- W. S.			.11.5/53660	(1249.34)
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic: 2. Diluted:	0.02 0.02	(0.01) (0.01)	0.01 0.01	0.01 0.01	0.01 0.01	(0.25) (0.25)

NOTES: The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and other disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the stock exchanges website at a link (bseindia.com/corporates) and on the Company's website at www.uniofficeautomation.com.

> For Universal Office Automation Limited Sunil Kumar Shrivastava Managing Director

Mewat Zinc Limited CIN: L27204DL1991PLC046120

REGISTERED OFFICE: 1/24, Bansi House, Asaf Ali Road, New Delhi 110002 Phone No.: 011-23234316, E-Mail: mewatzinc@gmail.com, Website: www.mewatzinc.com

EXTRACTS OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30™ SEPTEMBER. 2021

Year Ended Quarter Ended Half Year Ended SI. No. 30-09-2021 | 30-06-2021 | 30-09-2020 | 30-09-2021 30-09-2020 31-03-2021 **Particulars** (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 23.50 25.82 47.04 25.82 63.44 Total income from Operations 23.54 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 2.41 3.50 4.41 5.89 0.20 2.00 Exceptional and/or Extraodinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax 2.41 3.50 5.89 2.00 4.41 0.20 (after Exceptional and /or Extraordinary items 4 Net Profit / (Loss) for the period after tax 1.79 2.59 3.26 4.36 0.14 1.48 (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive income for the period 1.79 2.59 3.26 4.36 0.14 1.48 [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)] 400 Equity Share Capital -38.16 Reserves (excluding Revaluation Reserve) previous year) Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)-0.04 0.06 0.08 0.00 0.04 0.04 0.06 0.08 0.11 0.00 0.04

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half yearly Results submitted with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half yearly Results is also available on the website of Stock Exchanges and on Company website at www.mewatzinc.com.

2 The above results were reviewed by the Audit committee, and thereafter approved by the Board of Directos in their meetings held on 12th November, 2021. 3 The Statutory Auditor of the Company have carried out Limited Review of Financial Results for the guarter and half year ended 30th September, 2021

pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. For Mewat Zinc Limited 4 Previous year/Quarter figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary.

GENOMIC VALLEY BIOTECH LIMITED

Date: November 12, 2021 Place: New Delhi

J P Gupta Managing Director DIN:00253529

Regd. Off: 4 K.M. Stone, Berri Chharra Road, Village- Kherka Musalman, P.O. Tandaheri, Tehsil-Bahadurgarh, Distt-Jhajjar, Haryana-124507

CIN: L01122HR1994PLC033029; Tele: +91-9811341542 Email: genomicvalley@gmail.com; Visit: http://www.genomicvalley.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND YEAR TO DATE FROM APRIL 01, 2021 TO SEPTEMBER 30, 2021 Year to

Sr. No.	Particular	3 months ended	Preceding 3 months ended	sponding 3 months ended in the previous year	Year to date figures for current period ended	date figures for corre- sponding period ended	Previous year ended
		30-Sep-21 Un-Audited	30-Jun-21 Un-Audited	30-Sep-20 Un-Audited	30-Sep-21 Un-Audited	30-Sep-20 Un-Audited	31-Mar-21 Audited
1	Tota income from operation	289,800	169,600	669,690	459,400	947,290	2,110,026
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Item)	-571,655	-1,087,755	-263,696	-1,659,410	-1,618,504	-5,018,143
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Item)	-571,655	-1,087,755	-263,696	-1,659,410	-1,618,504	-5,018,143
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Item)	-571,655	-1,087,755	-263,696	-1,659,410	-1,618,504	-5,590,514
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-571,655	-1,087,755	-263,696	-1,659,410	-1,618,504	-5,590,514
6	Equity Share Capital (30,54,500 Equity Shares @ Rs. 10 each)	3,054,500	3,054,500	3,054,500	3,054,500	3,054,500	3,054,500
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						14,334,645
8	Earnings Per Share						
	(a) Basic	-0.19	-0.36	-0.09	-0.54	-0.53	-1.83
	(b) Diluted	-0.19	-0.36	-0.09	-0.54	-0.53	-1.83

Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly / year to date Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.genomicvalley.com)

For and on behalf of the Board of Genomic Valley Biotech Ltd

Rs 0.65 Rs 0.59 Rs 0.35 Rs 1.24 Rs 0.24 Rs 0.05

Place: Harvana Dated: 12.11.2021

Yogesh Agrawal (Managing Director) DIN-01165288



ARAVALI SECURITIES & FINANCE LIMITED CIN - L67120HR1980PLC039125

REGD OFFICE: PLOT No.136, 4th FLOOR, RIDER HOUSE, SECTOR 44, GURGAON-122003, HARYANA. Email: info@aravalisecurities.com Website: www.aravalisecurities.com STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (Rs. in lacs) FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30™ SEPTEMBER, 2021

		Quarter ended			Half Year	Year ended	
SI. No.	Particulars	30/09/2021 (Unaudited)	30/06/2021 (Unaudited)	30/09/2020 (Unaudited)	30/09/2021 (Unaudited)	30/09/2020 (Unaudited)	31/03/2021 (Audited)
1	Total income	168.01	130.85	96.42	298.86	112.41	144.57
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax, (before Exceptional and/or Extraordinary items)	136.16	96.74	51.12	232.90	34.51	7.58
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	136.16	96.74	51.12	232.90	34.51	7.58
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	97.95	89.77	52.53	187.72	35.92	7.57
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and the comprehensive Income (after tax)	0.02	0.05	0.05	0.07	0.12	(0.44)
6	Equity Share Capital	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)			(100-00010)			(1662.78)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic :	Rs 0.65	Rs 0.59	Rs 0.35	Rs 1.24	Rs 0.24	Rs 0.05

NOTES :

Diluted:

- The above is the extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter & half year ended 30th September 2021, filed with Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the securities of the Company is listed and on the website of the Company at www.aravalisecurities.com.
- The above financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), having regard to the recognition and measurement principles laid down in Ind AS 34 ("Interim Financial Reporting") and other recognized accounting practices generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"): The aforementioned unaudited result of the company for the guarter and half year ended 30th September 2021 have been reviewed by the
- Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 12th November, 2021. Provision for taxation under Income Tax Act, 1961 has been made based on the anticipated taxable income for the year as a whole.
- The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the aforementioned unaudited financial results of the company for the
- guarter & half year ended 30th September 2021 and has given unmodified opnion on the same. The Company's operations at present are confined to only one segment i.e. providing Financial and Other Advisory Services and accordingly
- there are no separate reportable operating segments as per Ind AS 108 Opertating Segments.
- The figures for the quarter ended 30th September 2021 are the balancing figures being difference between the unaudited figures in respect of half year ended 30th September, 2021 and the published year to date figures upto the quarter ended 30th June, 2021 of the relevant financial year.
 - The Figures of the previous quarter/year have been regrouped/rearranged whenever necessary, in order to make them comparable By order of the Board For Aravali Securities & Finance Limited

Dated: 12th November 2021 Devashish Poddar Place: Gurgaon

NOTICE OF ASSIGNMENT/ TRANSFER

Assignment of Not Readily Realisable Asset under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 **ADVANCE NAVOTPAD SURFACTANTS LIMITED**

(IN LIQUIDATION) (CIN: U74899DL1998PLC094875) (A company under liquidation process vide

Hon'ble NCLT order dated 09.08.2019) Registered Office of the company: 511/2/1, VILLAGE RAJOKARI NEW DELHI 110038 Last Date to apply and submission of Proposal: 19-11-2021, Friday by 05:00 PM

"he assignment/transfer of asset will be done by the undersigned liquidator on an "as is where is, as is what is, whatever there is & without recourse basis' under Regulation 37Aof the Insolvency & Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations 2016 Brief Description of Asset

Asset Description Asset Category Rights pertaining to underlying assets in the Assets underlying proceedings for preferential, application bearing C.A. No. 270/2019 sub-jundervalued, extortionate credit and fraudulen udice before Hon'ble NCLT' Principal Bench transactions sub-judice before Hon'ble NCLT.

Any eligible and interested party may approach the undersigned liquidator for Process Information Document and information pertaining to the subject asset and submit their proposal latest by 19.11.2021, Friday by 05:00 PM. Sethurathnam Ravi

Liquidator, Advance Navotpad Surfactants Limited IBBI Reg No. - IBBI/IPA-001/IP-P00372/2017-18/10629 Place: New Delhi Contact No. 011-40548860

SRG HOUSING FINANCE LIMITED R.O: 321, S. M. Lodha Complex, Udaipur 313001 Ph: 0294-2561882 Email-ld: info@srghousing.com, CIN No: L65922RJ1999PLC015440. Website: www.srghousing.com STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2021

30.09.2021

Quarter ended Half year Quarter ended Previous year

30.09.2020

Managing Director (DIN: 00248843)

Outstanding dues Rs.

ended

ended

PARTICULARS

Date: 12-11-2021

under:

Nature of Facility

(Rs in Lacs)

(Amount in ₹)

		30.09.2021		31.03.2021
		Unaudited		Audited
Total income from operations (net)	2,047.04	3,805.01	2,023.15	7,666.80
Net Profit for the period before Tax (before and after Exceptional and/or Extraordinary items#)	722.64	1,227.13	736.04	2,377.44
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	571.00	978.82	597.63	1,883.38
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	571.34	979.51	596.29	1,874.89
Equity Share Capital	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00
Reserves (excluding Revaluation Reserves) (Audited)	8061.07	8061.07	6,185.59	8061.07
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) Basic & Diluted	4.39	7.53	4.60	14.49
Outstanding Redeemable Preference Shares		10 102	1/2	91
Debenture redemption reserve		0.5		1.0
Net Worth (Audited)	9,361.07	9,361.07	7485.59	9,361.07
Outstanding Debt/Paid up Debt Capital	29,643.65	29,643.65	28,407.16	28577,53
Debt Equity Ratio	2.87	2.87	3.37	3.05
Capital Redemption Reserve Interest		0.5		1.2
Service Coverage Ratio	1.96	1.82	1.93	1.77
Debt Service Coverage Ratio	0.40	0.37	0.95	0.55

Notes: a) The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter ended September 30, 2021 filed with BSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Un-Audited Financial Results for the tember 30, 2021 are available on the website of BSE Limited at www.bse ompany's website at www.srghousing.com. B) For the items referred in sub-clause (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and other Disclosures Requirements) Regulations, 2015 the pertinent disclosures have been made to BSE and

can be accessed on the website of BSE Limited at www.bseindia.com. CI MCA vide its notification dated 18th June 2017 has exempted Housing Finance Company registered with National Housing Bank from creating Debenture Redemption Reserve in respect of privately placed debentures. For SRG Housing Finance Limited Place: Udaipur Vined K. Jain

Bank of India Bhangel SSI BRANCH

Kumar Shopping Complex, Gejha Road, Bhangel Distt Gautambudh Nagar, (UP) 201304 [See Rule-8 (1)]

(For Immovable Property)

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the Bank of India,

Bhangel SSI branch under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 05.04.2021 calling upon the Borrower M/s. Shirdi Infratech Pvt. Ltd. (principal debtor), plot no. B-12/8, admeasuring 450 sqm. Site B, Surajpur Industrial Area, Dist. Gautambudh Nagar (UP) to repay the amount mentioned in the notice as

(a) Cash Credit 95,00,000 102,34,345.23 (B) FITL 6,00,020 6,10,829.43 Total 1,01,00,020 1,08,45,174.66 (Rs. One crore eight lakh forty five thousand one hundred seventy four and sixty six paise) within 60 days from the date of receipt of the said The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

Sanctioned Limit Rs.

borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of section 13 of act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rule, 2002, on this the 12" day of November of the year The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to

deal with the property and any dealings with the said property/ies will be subject to the charge of the BANK OF INDIA Bhangel SSI BRANCH for an amount of Rs. 1,08,45,174.66 and interest thereon. The borrower attention is invited to the provisions of sub-section (8) of

section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property All that part and parcel of the property consisting of Leashold property

bearing plot no. B-12/8, admeasuring 450 sqm. Site B, Surajpur Industrial Area, Dist. Gautambudh Nagar (UP) in the name of Mr. Pramod Kumar Upadhyay S/O Shri T. Upadhyay favour of the Bank. The property is bounded s under:

North: Plot No B-7 East: PLOT No. B-12/7 Date: 12-11-2021 Place :Bhangel

South: 12 meter wide road West: Plot No B-12/9 **Authorised Officer** Bank of India

Ended

Ended

Quarter

Ended

SWADESHI POLYTEX LIMITED

A-1, Sector-17, Kayi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P).

CIN: L25209UP1970PLC003320, Phone: 0120 2701472, Email: info@splindia.co.in, Website: www.splindia.co.in Statement of Unaudited Financial results for the Quarter & Half Year ended

on September 30, 2021 Half Year Quarter

Particulars

INO		30.09.2021 Unaudited	30.09.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited
1	Total Income from Operations	3.52	19.64	3.82
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-42.03	-65.64	-45.24
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	-42.03	-65.64	-45.24
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	-298.68	-315.64	-32.20
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	-298.68	-315.64	-32.20
6	Equity Share Capital	390.00	390.00	390.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year		0.00	0.00
8	Earnings per Equity Share (of			

discontinued operations)--0.77 -0.81 Basic: -0.08 Diluted: -0.08 -0.77 -0.81 Note: 1- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other

www.bseindia.com and also on Company's website at www.splindia.co.in. 2- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the

Board of Directors at their respective meetings held on 12th November, 2021.

By order of the Board For Swadeshi Polytex Limited

Gaurav Swarup, Chairman (DIN 00374298)

New Delhi

Date: 12thNovember, 2021

Place: Ghaziabad

Rupee 1/- each) (for continuing and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock Exchange a

560071

13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3)

In the matter of LEVNET VENTURE **PARTNERS LLP** having its registered office at J 302, Central Park South, Elcot Avenue, Sholinganallur,

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, Chennai, Tamil Nadu, within 21(twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above.

For and on behalf of

Vimal Prakash Srivastava **Designated Partner** Address: G03-4th Floor, Sushant Lok 3, Sector 57, Near Boom Plaza, Gurgaon, 122011

'IMPORTANT' Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such any manner whatsoever.

इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत और कॉपॉरेट कार्यालय : वन वर्ल्ड सेंटर, 20वीं मंजिल, टॉवर 2ए, ज़पिटर मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, मुंबई - 400 013 कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U65990MH2016PTC271587 देली.: +91 22 43157000; फैक्स: +91 22 43157010

सूचना

ई-मेल : contact@indostarcapital.com; वेबसाइट : www.indostarhfc.com

मुख्य निर्देश - गैर बॅंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के पैरा 93 के अनुसार एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी का शाखा कार्यालय, जो चौथी मंजिल, एम-5 ए, मिडिल सर्कल, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 पर स्थित है, को 13 फरवरी, 2022 के व्यवसायिक समय की समाप्ति के बाद से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका परिचालन इसके निकटतम शाखा कार्यालय में स्थानांतरित किया जा रहा है, जो एफएफ 38, 1ली मंजिल, पर्ल्स ओमेक्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034 पर स्थित है.

यदि इस संबंध में किसी सहायता की आवश्यकता है, तो आप उपरोक्तानुसार निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या हमें contact@indostarcapital.com पर ई-मेल भेज सकते हैं.

इस सूचना को कंपनी की वेबसाइट (www.indostarhfc.com) पर भी देखा जा सकता है.

इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड अधोहस्ताक्षरकर्ता/ प्रियल शाह कंपनी सचिव

HINDUJA

हिंदुजा हाउसिंग फाईमेंस लिमिटेड प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, एक्सिस बैंक के ऊपर, वैशाली, गाजियाबाद, यू.पी.-201010 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002

के अंतर्गत प्रतिभृतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है। हिंदजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाय राशि शेष थी. उसकी विस्तत मांग सचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन एव प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित /स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी. जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई / जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नही करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियाँ जो कि निम्नलिखित ऋणियों / जमानतदारों के नाम है, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा और कब्जा सचना / ई—नीलमी सचना में कर्जदार व गारंटरों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विवरण निम्नानसार है:—

कर्जदार/गारन्टर के नाम/ एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख बकाया राशि	सिक्योर्ड आस्तियों का विवरण
श्री मनोज कुमार सिंह और मंजरी सिंह, दोनों मकान नं. आरजेड–23–ई–14, गली नं. 15 इंद्रा पार्क पालम कॉलोनी दक्षिण पश्चिम दिल्ली–110045		मकान नं. RZ-23E/4 , प्रथम तल, बिना छत के अधिकार, क्षेत्रफल 102 वर्ग मी. अर्थात 85 वर्ग मी., खसरा नं. 879/638 का हिस्सा, इंद्रा पार्क, गली
खाता नं. DL/NCU/NOIU/A000000076 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 31-03-2021	र 23,06,773/- दिनांक 30.09.2021 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	नं. 15, गांव नसीरपुर, दिल्ली के क्षेत्र में स्थित, चौहद्दी: पूरब में – अन्य की संपत्ति, पश्चिम में – 13 फीट गली, उत्तर में – अन्य की संपत्ति, दक्षिण में – अन्य की संपत्ति

उक्त वर्णित ऋणियों 🖊 जमानतदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मुल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्चे आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के मीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

दिनांक : 13.11.2021, स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड



दिनांक: 12-11-2021

HEXA TRADEX LIMITED

CIN - L51101UP2010PLC042382

Regd. Office: A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403 Corp. Office: Jindal Centre, 12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2021

S.	Particulars	r		Stan	dalone					Consc	olidated		
No.			Quarter ended	1	Half ye	ar ended	Year ended		Quarter ende	d	Half ye	ar ended	Year ended
		30.09.2021 Unaudited	30.06.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	30.09.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited		30.09.2021 Unaudited	30.06.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited		30.09.2020 Unaudited	
1.	Total income from operations	0.89	-	0.27	0.89	0.27	0.92	8.54	14.58	9.90	23.12	19.53	38.54
2.	Net profit/(loss) before tax	(54.88)	(58.05)	(55.83)	(112.93)	(95.67)	(186.02)	(1,721.15)	(16.20)	(3.41)	(1,737.36)	314.67	999.85
3.	Net profit/(loss) after tax	(40.73)	(43.41)	(41.78)	(84.14)	(71.59)	(137.64)	(1,348.32)	39.73	9.45	(1,308.60)	332.59	951.88
4.	Total comprehensive income [Comprising profit/(loss)												
	(after tax) and other comprehensive income (after tax)]	57,440.74	30,099.61	28,121.74	87,540.35	28,099.02	90,294.94	61,840.01	36,477.68	29,131.61	98,317.67	31,776.58	97,716.39
5.	Equity share capital	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91
6.	Other equity				202,632.84	145,192.09	115,092.48				218,757.00	54,499.52	120,439.33
7.	Earnings per share (of ₹ 2/- each)												
	(1) Basic	(0.07)*	(0.08)*	(0.08)*	(0.15)*	(0.13)*	(0.25)	(2.44)*	0.07*	0.02*	(2.37)*	0.60*	1.72
	(2) Diluted	(0.07)*	(0.08)*	(0.08)*	(0.15)*	(0.13)*	(0.25)	(2.44)*	0.07*	0.02*	(2.37)*	0.60*	1.72

Not Annualised

Place: New Delhi

Date: November 12, 2021

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/half yearly/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarterly/half yearly/annual financial results are available on the websites of the stock exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website, www.hexatradex.com

On behalf of Board of Directors of Hexa Tradex Limited

Veni Verma **Managing Director** DIN: 07586927

(₹ Lakhs)

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA. PUBLIC ANNOUNCEMENT

drom DROOM TECHNOLOGY LIMITED

Droom Technology Limited ("Our Company") was incorporated as Droom Technology Private Limited on September 9, 2014, at New Delhi as a private limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Assistant Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana, at New Delhi. Our Company was converted into a special resolution passed by our Shareholders at the EGM held on August 16, 2021 and the name of our Company was changed to Droom Technology Limited. A fresh certificate of incorporation consequent upon conversion to a public limited company was issued by the Registrar of Companies. National Capital Territory of Delhi and Harvana, at New Delhi ("RoC") on September 14, 2021. For details of change in name and Registered and Corporate Office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 157 of the Draft Red Herring Prospectus dated November 11, 2021 ("DRHP").

Registered Office: 90/31B, First Floor, Malviya Nagar, New Delhi - 110017, Delhi; Telephone: +91 11 4040 4501; Corporate Office: 77A, Building No.1, Iffco Road, Sector-18, Gurugram - 122 015, Haryana; Telephone: +91 124 4610 300 Website: www.droom.in; Contact Person: Anil Dwivedi, Company Secretary and Chief Compliance Officer; E-mail: companysecretary@droom.in; Corporate Identity Number: U72300DL2014PLC271386

OUR PROMOTERS: SANDEEP AGGARWAL AND DROOM PTE. LTD.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1 EACH ("EQUITY SHARES") OF DROOM TECHNOLOGY LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 20,000 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [◆] EQUITY SHARES ("OFFERED SHARES") BY DROOM PTE. LTD. ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") AGGREGATING UP TO ₹ 10,000 MILLION ("OFFER FOR SALE"). THE OFFER WOULD CONSTITUTE [•]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY CONSIDER A FURTHER ISSUE OF EQUITY SHARES, INCLUDING BY WAY OF A PRIVATE PLACEMENT OR ANY OTHER METHODS AS MAY BE PERMITTED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW, FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING UP TO ₹ 4,000 MILLION, AT ITS DISCRETION, PRIOR TO THE FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC ("PRE-IPO PLACEMENT"), ANY AMOUNT RAISED PURSUANT TO SUCH A PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE AMOUNT OF THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED (THE "SCRR"). THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 1 EACH AND THE OFFER PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DECIDED BY OUR

COMPANY AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS") AND WILL BE ADVERTISED IN [.] EDITIONS OF [.] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, HINDI ALSO BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF DELHI WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS"). In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the total Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or

similar circumstances, our Company and the Promoter Selling Shareholder may, in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulations. This Offer is being made through the Book Building Process and in compliance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not less than 75% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company and the Promoter Selling Shareholder may, in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis (the "Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"). Further, 5% of the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion") shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not more than 10% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders, in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process and provide details of their respective bank accounts (including UPI ID in case of RIBs), in which the Bid Amount will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" on page 318 of the DRHP.

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") shall be made available to the public for comments, if any, for period of at least 21 days, from the date of filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.bseindia.com, respectively and the websites of the respective BRLMs, i.e. ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com, Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in, Edelweiss Financial Services Limited at www.edelweissfin.com, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited at https://www.business.hsbc.co.in/en-gb/in/generic/ipo-open-offer-and-buyback and Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited at www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html. We invite the members of the public to give comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made therein. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Chief Compliance Officer of the Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by the Company and/or the BRLMs and/or the Company Secretary and Chief Compliance Officer of our Company on or before 5 p.m. on the 21" day from the aforesaid date of filing the DRHP with SEBI. Investments in equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an

investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 22 of the DRHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision. Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring Prospectus. There may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP. The Equity Shares, when offered, through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on BSE and NSE.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 157 of the DRHP. The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the memorandum and the number of shares subscribed for by them see "Capital Structure" on page 70 of the DRHP.

-					
60	101	-16			_
ST 50		20	реси	ıritie	s

ICICI Securities Limited ICICI Venture House Appasaheb Marathe Marg Prabhadevi, Mumbai - 400025 Maharashtra, India Tel: +91 22 6807 7100 E-mail: droom.ipo@icicisecurities.com Investor grievance E-mail: customercare@icicisecurities.com

Website: www.icicisecurities.com

SEBI Registration No: INM000011179

Contact person: Sameer Purohit/Sumit Singh

AXIS CAPITAL

Axis Capital Limited Axis House, 1" Floor C-2 Wadia International Centre Pandurang Budhkar Marg Mumbai - 400025 Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183 E-mail: dtl.ipo@axiscap.in Investor Grievance E-mail: complaints@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in

Contact Person: Harish Patel

SEBI Registration No.: INM000012029

customerservice.mb@edelweissfin.com Website: www.edelweissfin.com

◆ Edelweiss

Ideas create, values protect.

■ Edelweiss

Ideas create, values protect.

Idea Edelweiss Financial Services Limited 6" Floor, Edelweiss House Off C.S.T Road, Kalina Mumbai - 400098 Maharashtra, India Tel: +91 22 4009 4400 E-mail: droom.ipo@edelweissfin.com Investor Grievance E-mail:

Contact Person: Lokesh Shah

SEBI Registration No.: INM0000010650

REGISTRAR TO THE OFFER

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS HSBC HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited

52/60, Mahatma Gandhi Road, Fort Mumbai - 400001 Maharashtra, India Tel: +91 22 2268 5555 E-mail: droomipo@hsbc.co.in Investor Grievance E-mail: investorgrievance@hsbc.co.in Website: https://www.business.hsbc.co.in/ en-gb/in/generic/ipo-open-offer-and-buyback Contact Person: Sanjana Maniar/Vinod Nagappan

SEBI Registration No.: INM000010353

NOMURA Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited Ceejay House, Level 11, Plot F, Shivsagar Estate, Dr. Annie Basant Road, Worli, Mumbai - 400018 Maharashtra, India. Tel: +91 22 4037 4037 E-mail: droomipo@nomura.com

Website: www.nomuraholdings.com/company /group/asia/india/index.html Contact Person: Vishal Kanjani SEBI Registration No.: INM000011419

investorgrievances-in@nomura.com

Investor Grievance E-mail:

Kfin Technologies Private Limited KFINTECH

Selenium, Tower B, Plot No - 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi - 500032 Telangana, India. Tel: +91 40 6716 2222, 1800 309 4001 E-mail: droom.ipo@kfintech.com; Investor grievance e-mail: einward.ris@kfintech.com; Website: www.kfintech.com; Contact person: M Murali Krishna; SEBI registration number: INR000000221

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For DROOM TECHNOLOGY LIMITED On behalf of the Board of Directors

Anil Dwivedi Company Secretary and Chief Compliance Officer

DROOM TECHNOLOGY LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI. The DRHP will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, stock exchanges i.e., BSE at www.nseindia.com, respectively and is available at the respective websites of the BRLMs, i.e. ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com, Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in, Edelweiss Financial Services Limited at www.axiscapital.co.in, Edelweiss Financial S buyback and Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited at www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such

risk, see the section titled "Risk Factors" on page 22 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act) in transactions exempt from the registration requirements of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in compliance with Regulation S under the Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

जना स्मॉल फाइनांस बैंक (एक अनुसुचित वाणिज्य बैंक)

प्रधान कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला ईनर रिग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंग्लोर-

स्वणाभूषणा को नालामा के लिय सावजानक सूचना

नीचे वर्णित ऋणधारकों कई बार स्मरण दिलाये जाने के बावजूद निर्धारित समय में ऋणों का भूगतान करने तथा स्वर्णाभुषणों को विमोचित करने में विफल रहे। नीचे सूचीबद्ध ऋणधारकों द्वारा उक्त ऋण खाताओं के अंतर्गत बंधक रखी गई स्वर्णाभुषण/गहनों को 15.11.2021 को 10.30 पूर्वा. में हमारी शाखा परिसरों में सार्वजनिक/ऑनलाइन/निजी नीलामी में बिक्री की जायेगी। इसमें भाग लेने के इच्छक व्यक्तियों से आग्रह है कि शाखा में सम्पर्क करें। बैंक को चाहे जो भी हो, उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी भी बोली का स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार है। कृपया ध्यान रहे कि यदि नीलामी उसी दिन परी नहीं होती है तो वह उसी नियमों एवं शर्तों पर अगले दिवस को आयोजित होगी। यदि ग्राहक की मृत्यू हो चुकी है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामिनी/विधिक उत्तराधिकारी पर लागू होगी। एतद्द्वारा ऋणधारकों को अधिसूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे का भुगतान करें। जिसमें विफल होने पर बंधक स्वर्णाभुषणों की बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष देयता यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत के साथ वसल की जायेगी। किसी भी प्रकार की पछताछ के तथा नियमों एवं शर्तों के लिये शाखा में सम्पर्क करें। शाखा के पते के विवरणों के लिये www.janabank.com देखें।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	ऋणधारक ∕सह-ऋणधारक का नाम	गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों का शुद्ध वजन
1	30808740000337	निशा	14.9
जना	स्मॉल फाइनांस बैंक लि	., 1ला तल, सम्पत्ति नं. बी-109, ज्योति कॉलोनी, दुर्गापुरी	चौक के निकट,
गाहर	रंग दिल्ली–110032 भा	गत	

2 31248740000062 जकीरुल निशा 26.93 जना स्मॉल फाइनांस बैंक लि., भूतल, सम्पत्ति सं. 2152, बवाना रोड, नरेला मंडी, दिल्ली-110040, भार

3 30218740000577 अनीता जना स्मॉल फाइनांस बैंक लि., नं. 8, पश्चिम एन्क्लेव, रोहतक रोड, पीरागढी चौक के निकट, मारुति ३

स्थानः दिल्ली हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी तिथि: 13.11.2021 जना स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड

रूम के सामने, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087, भारत

QUASAR INDIA LIMITED

CIN: L67190DL1979PLC009555 Regd. Off.: 305, Third Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, Delhi-110085 Mob:+91 9625304043 | Email: guasarindia123@gmail.com

for the Quarter and Half year ended September 30, 2021

Website: www.quasarindia.in **Extracts of the Standalone Unaudited Financial Results**

Ξ	89		Y.	(Rs. in Lakh)
S	925796 W	Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended
Si No.	Particulars	30/09/2021 (Unaudited)	30/09/2021 (Unaudited)	30/09/2020 (Unaudited)
1.	Total income from operations	11.42	21.75	16.68
200	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6.62	12.73	12.30
99	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax	6.62	12.73	12.30
70	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.89	9.41	9.10
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)	19.003.00	5335.0	120020
	and other Comprehensive Income (after tax)]	4.89	9.41	9.10
6.	Equity Share Capital	535.25	535.25	535.25
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	16.47	16.47	17.76
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -	250275	300000	0.000
	1. Basic :	0.09	0.18	0.17
	2. Diluted :	0.09	0.18	0.17

. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the Website of the Company i.e (www.quasarindia.in) & website of the stock Exchange(s) (www.bse-india.com) . The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 12th November, 2021. 3. The Financial result have been prepared in accordance with

the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Ind -as rules (As amended). For and on behalf of the Board of Directors For Quasar India Limited

Date: 12.11.2021 Harish Kumar (Director) Place: New Delhi DIN: 02591868

> शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (पर्व में आर्किट होल्डिंग्स ऐंड क्रेडिट्स लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

सीआईएन : L22100DL1990PLC039464 पंजी. कार्या.: 37वां द्वितीय तल, रानी झांसी रोड, मोतिया खान, पहाड्गंज, दिल्ली-110055

ई-मेल : sharplinebroadcastlimited@gmail.com, वेबसाइट : www.sharplinebroadcast.in 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध-वर्ष हेतु अ-लेखापरीक्षित परिणामों का विवरण भाग ।

वर्ती वर्ष में समाप्त विवरण अर्घ-वर्ष तिमाही तदनुरूपी ३ माह 30.09.2021 30.09.2021 30.09.2020 (अ–लेखापरीक्षित (अ-लेखापरीक्षित) (अ-लेखापरीक्षित) (नीचे की टिप्पणियों का संदर्भ लें) (50.58)5.19 एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व*) 3. कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि 5.78 (50.58)5.19 (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त) (52.04)5.19 4.32 (52.04)4.32 5.19 से समाविष्ट 6. समता अंश पूंजी 0.04 -0.45 0.05

. उपरोक्त जो है वो सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली २०१५ के विनियम ३३ अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दर्ज त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक निष्कर्ष है। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज(जों) तथा सूचीबद्ध कंपनी की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

2. तनुकृत

दिनांक : 12.11.2021

विवरण

. लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के कारण निवल लाभ/हानि, कुल व्यापक आय अथवा किसी अन्य संबंधित वित्तीर

मद पर पड़नेवाले प्रभाव का प्रकटीकरण पाद टिप्पणी यानी फुट नोट के माध्यम से किया जाएगा। . आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों को आईएनडी-एएस नियमावली/एस नियमावली. जो कोई भी लाग है. अनुपालन के अंतर्गत, लाभ एवं हानि विवरण में समायोजित किया गया है

पदनाम : पर्णकालिक निदेशव

0.04

तिमाही अर्द्धवार्षिक तिमाही

-0.45

0.05

स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड ए–1, सेक्टर–17, कवी नगर, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद–201001 (यूपी) सीआईएनः L25209UP1970PL003320. फोनः 0120 2701472 ईमेलः info@splindia.co.in, वेबसाईटः www.splinida.co.in

30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही/अर्द्धवार्षिक के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

30.09.2021 30.09.2021 30.09.2020 अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित | परिचालनों से कुल आय 3.52 19.64 3.82 शद्ध लाभ / (हानि) अवधि हेत तथा (कर अपवाद स्वरूप तथा/अथवा -42.03 -65.64 -45.24 असाधारण सामग्री से पूर्व) शुद्ध लाभ / (हानि) अवधि हेत् तथा (कर अपवाद स्वरूप तथा / अथवा -42.03 -65.64 -45.24 असाधारण सामग्री से पश्चात्) शुद्ध लाभ / (हानि) अवधि हेत् तथा -298.68 -315.64 -32.20 कर पश्चात् (अपवाद स्वरूप तथा/ अथवा असाधारण सामग्री से पश्चात्) अवधि हेत् कुल योग गहन आय (अवधि हेत् लाभ / हानि शामिल करके तथा / अथवा असाधारण सामग्री पश्चात तथा -298.68 -315.64 -32.20 अन्य गहन तथा पूर्ण आय (कर पश्चात) 390.00 390.00 इक्विटी शेयर पूंजी 390.00 रिजर्व (ईवैल्युएशन रिजर्व को छोडकर) जैसा कि पिछले वर्ष की ऑडिटेड 0.00 0.00 0.00 बैलेंस शीट में दिखाया गया है 8 प्रति इक्विटी शेयर आय (रुपये 1/-प्रत्येक) (जारी और बंद परिचालन के लिए) -–मूलभूत

नोट— 1— उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2015 (''सूचीकरण विनियमन'') के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गर समाप्त तिमाही के विस्तत अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश है। समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का संपर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट **www.bseindia.com** और कम्पनी

की वेबसाइट www.splindia.co.in पर भी उपल्ब्ध है। 2- उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वार

12 नवंबर, 2021 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में अनुमोदित किया गया बोर्ड की ओर से

-0.81

-0.81

-0.77

-0.77

-0.08

-0.08

स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड

स्थानः गाजियाबाद गौरव स्वरूप, अध्यक्ष दिनांकः नवम्बर 12, 2021 (डीआईएन: 00374298)

www.readwhere.com

Place: New Delhi

Date: November 12, 2021

Chennai - 600119.

Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Chennai, Tamil Nadu under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act. 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "Tamil Nadu" to the state of "Haryana".

LEVNET VENTURE PARTNERS LLP

Date: 13th November 2021, Place: Gurgaon

contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in